



Sri Arvind Mahila College, Patna
 Accredited by NAAC with B⁺ Grade
 (A Constituent Unit of Patliputra University, Patna)



A workshop on natural fibre & sustainable fabric

| Date | No. of students enrolled | Organizing Department |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| 18-07-2018 | 88 | Home Science |

दूरभाष : 0612-3266992, 3266993
 ई-मेल : samcpatna0612@gmail.com
 वेबसाइट : www.samcpatna.com

श्री अरविन्द महिला कॉलेज, पटना
 (पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई)
 काजीपुर, पटना - 800 004 (बिहार)

दिनांक 18-7-2018

प्रेस विज्ञापन
 "A WORKSHOP ON NATURAL FIBRE AND SUSTAINABLE FABRIC"- MITSA"

प्राकृतिक रेशम एवं वस्त्रोद्योग पर एक कार्यशाला
 पटना, 18 जुलाई

गृहविज्ञान विभाग, श्री अरविन्द महिला कॉलेज द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन वस्त्रोद्योगी प्राकृतिक रेशम पर किया गया। इस कार्यक्रम में कल्पना कुमारी जो founders member women enterpreneurs society की हैं, उन्होंने प्राकृतिक रेशम के अंतर्गत आने वाले वास्तविक रेशम जैसे कपास, सिपत जूट, जानवर रेशम में आने वाले रेशम इन सभी की उपलब्धि विशेषगरे बुनारी, रेगार्ड, परिष्करण तथा पहचान की विधि को विस्तारपूर्वक बताया। रेशमों के अलावा वेड स्टाइड को तथा साध्य रूप से विभिन्न प्रकार के कौकन को दिखाया। रेशम के प्रकार के अंतर्गत स्वयंसेवक रेशम जैसे - मुँगा सिल्क, अरुंडी (Eri silk) तथा टसर सिल्क के बारे में विशेष रूप से बिहार के भागलपुर में उत्पादित कपड़ों के बारे में जानकारी दी।

आरंभ में आयोजन का उद्घाटन करते हुए कॉलेज की प्राचार्य प्रो. चमन चौधरी ने कहा कि आजकल के वस्त्रों में मिलावटी रेशमों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है परंतु प्राकृतिक रेशमों से निर्मित वस्त्र ही सर्वोपरि हैं। विषय परिचय तथा कार्यक्रम के संचालन का कार्य सहायक उपाध्यक्ष विष्मती सिंह ने किया और कहा कि भारत कपास का जन्मदाता रहा है और आज

दूरभाष : 0612-3266992, 3266993
 ई-मेल : samcpatna0612@gmail.com
 वेबसाइट : www.samcpatna.com

श्री अरविन्द महिला कॉलेज, पटना
 (पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई)
 काजीपुर, पटना - 800 004 (बिहार)

दिनांक

भी फैशन की दुनिया में भी प्राकृतिक रेशमों से बने वस्त्रों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इस कार्यक्रम में डा. कुंजन, गठ मीलम, जोनी कुमारी, अलुभा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएँ एवं छात्राएँ उपस्थित थीं। गृहविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डा. शहनाज खानम ने धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन संपन्न हुआ।

Pranaya
 18-7-18
 प्राचार्या
 Principal
 Sri Arvind Mahila College
 Kazipur, PATNA

